

प्रेस नोट

औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का किया निरीक्षण

आज दिनांक 25.05.2018 को औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर उपलब्ध वे-साइड एमेनिटीज़ का निरीक्षण किया गया। इस दौरान यूपीडा के सीईओ श्री अवनीश कुमार अवस्थी व विभाग से संबन्धित सभी अधिकारीगण भी उपस्थित थे। माननीय मंत्री जी ने निरीक्षण के दौरान आगरा से लखनऊ की ओर 101 किलोमीटर पर बने वे-साइड एमेनिटीज़ का निरीक्षण किया। वे-साइड एमेनिटीज़ में पार्किंग, पेयजल, शौचालय व फूड कोर्ट की समुचित व्यवस्था की गई है। यात्रियों को इन स्थलों पर विश्राम व अन्य मूलभूत सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। 101 किलोमीटर पर बने वे-साइड एमेनिटीज़ के निकट ही एक छोटे से पार्क "पंचवटी" में माननीय मंत्री महोदय ने वृक्षारोपण भी किया। वृक्षारोपण के दौरान उन्होंने अशोक, पीपल, बरगद, बेल एवं आंवला सहित पाँच तरह के पौधे लगाए। इसके साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बनी चारों वे-साइड एमेनिटीज़ अब पूरी तरह क्रियान्वित हो गई हैं। यह वे-साइड एमेनिटीज़ क्रमशः चेनेज़ 101+200 (बायीं ओर) मैनपुरी जनपद, 194+300 (दायीं ओर) इटावा जनपद, 217+900 (बायीं ओर) कानपुर नगर तथा 227+100 (दायीं ओर) उन्नाव जनपद में स्थित हैं। इन वे-साइड एमेनिटीज़ में पेयजल, शौचालय, वाहनों की पार्किंग, खानपान की सुविधा, फ्यूल स्टेशन, मोटेल व आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शामिल हैं। एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं की सुविधा हेतु वर्तमान में उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा खानपान की सुविधा तात्कालिक रूप से उपलब्ध करायी गयी है। एक्सप्रेस-वे पर सुचारू एवं सुरक्षित यातायत प्रबंधन हेतु एडवांस्ड ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) की व्यवस्था की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय ने टोल प्लाज़ा की कार्यक्षमता व क्रिया कलापों का भी जायज़ा लिया। अपने निरीक्षण के दौरान माननीय मंत्री महोदय ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की तथा उनके द्वारा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के अपने निरीक्षण के दौरान माननीय मंत्री जी कुछ जगहों एवं टोल प्लाज़ा पर रूके व वहाँ तैनात विभाग के कर्मचारियों से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने ट्रेफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिये। यह एक्सप्रेस-वे 302.288 किलोमीटर में फैला है। एक्सप्रेस-वे आगरा (आगरा इनर रिंग रोड) से प्रारंभ होकर जनपद फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ (सरोसा - भरोसा) में राजमार्ग स० -40 पर समाप्त होता है।

|

-प्रेस नोट की समाप्ति-